



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1939 (श0)

(सं0 पटना 35) पटना, सोमवार, 15 जनवरी 2018

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी 2018

सं० वन/पर्या०-106/1997(खंड-I)-24(ई)/प0व0—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-4 (2)(a), 4(2)(b), तथा 4(2)(f) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | डॉ० अशोक कुमार घोष, | अध्यक्ष |
| (2) | प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| (3) | प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| (4) | प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | सदस्य |
| (5) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) बिहार, पटना | सदस्य |
| (6) | निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |

II. विभागीय अधिसूचना सं० 1381, दिनांक 13.04.17 के द्वारा श्री आलोक कुमार, भा०व०से० को पर्षद् के सदस्य सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है।

- III. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पुनर्गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विहित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन एवं प्रदत्त शक्तियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है।
- IV. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सभी सदस्यों का कार्यकाल (सदस्य सचिव को छोड़कर) तीन वर्षों या पर्षद् के पुनर्गठन होने तक का होगा। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-5 के शर्तों के अनुरूप सदस्यों की सेवा शर्त होगी।
- V. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पर्यावरण एवं वन विभाग की पूर्व की अधिसूचना संख्या-17(ई0), दिनांक 14.01.2013 एवं अधिसूचना सं0 505(ई0), दिनांक 29.07.2016 को इस हद तक अवक्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 35-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>